



Monthly Coverage Dossier

March 2022

Future Generali India Life Insurance Company Limited

Index

FGILI Monthly Report - March 2022						
Overview of Activities	Spokesperson	Publications captured	Journalist	Timeline	Media Type	Category
Interview						
FGILI #BreakTheBias activity	Ms. Shwetha Ram	ET HRWorld	Hemanshi Tiwari	10-Mar-22	Online	CAT A
Quote from HR for Women's Day Edition	Ms. Shwetha Ram	Human Capital	Anushruti Singh	15-Mar-22	Magazine	CAT A
Women's day issue on job satisfaction	Ms. Shwetha Ram	Banking Frontiers	Ravi Lalwani	25-Mar-22	Magazine	CAT A
Market trends to be observed	Mr. Niraj Kumar	ET Markets	Amit Mudgil	29-Mar-22	Online	CAT A
Author Article						
Cautionary practices to help steer you clear of any life insurance scams	Mr. Subhashish Acharya	The Times of India	Ajay Tiwari	29-Mar-22	Online	CAT A
Translating the article on 'Cautionary practices to help steer you clear of any life insurance scams 'to Hindi	Mr. Subhashish Acharya	Dainik Bhaskar (12 Editions)	Ajay Tiwari	29-Mar-22	Print	CAT A
Translating the article on 'Cautionary practices to help steer you clear of any life insurance scams 'to Hindi	Mr. Subhashish Acharya	Divya Bhaskar (2 editions)	Ajay Tiwari	29-Mar-22	Print	CAT A
Translating the article on 'Cautionary practices to help steer you clear of any life insurance scams 'to Hindi	Mr. Subhashish Acharya	Dainik Bhaskar online	Ajay Tiwari	29-Mar-22	Online	CAT A
Press Release						

Generali becomes majority shareholder in Indian life insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Jaipur Evening Post		1-Apr-22	Print	CAT B
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Janpath Samachar		1-Apr-22	Print	CAT B
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Dainik Hind Sagar		1-Apr-22	Print	CAT B
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Dainik Aaj Samaj		1-Apr-22	Print	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Mint	Mass Issue	31-Mar-22	Print	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	The Financial Express		31-Mar-22	Print	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Dainik Adhikar (Jaipur)		31-Mar-22	Print	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Dainik Bhaskar (Delhi)		31-Mar-22	Print	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Navbharat		31-Mar-22	Print	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Dainik Navjyoti		31-Mar-22	Print	CAT A

Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	ET BFSI	31-Mar-22	Online	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	The Hindu	31-Mar-22	Online	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	The Economic Times Hindi	31-Mar-22	Online	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Navbharat	31-Mar-22	Online	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	The Print Hindi	31-Mar-22	Online	CAT B
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Asia Insurance Post	31-Mar-22	Online	CAT B
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Insurance Magazine	31-Mar-22	Online	CAT B
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	The Economic Times	31-Mar-22	Online	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Business Standard	31-Mar-22	Online	CAT A

Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Hindu Business line		31-Mar-22	Online	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	NDTV		31-Mar-22	Online	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Outlook India		31-Mar-22	Online	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	Devdiscourse		31-Mar-22	Online	CAT A
Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture	Mr. Miranjit Mukherjee	The Quint		31-Mar-22	Online	CAT A
Industry Story						
Comments on US Fed Tapering						
Market Highlights: Sensex surges 1,047 points, Nifty settles above 17,250-mark on positive global cues	Mr. Niraj Kumar	Mint	Mass issue	17-Mar-22	Online	CAT A
Stock Market Highlights: Nifty forms bullish candle. What does it signal for Monday's session?	Mr. Niraj Kumar	The Economic Times		17-Mar-22	Online	CAT A
US Fed rate hike impact on India: Prospects remain strong despite inflationary headwinds; India on cusp of sustained revival, say experts	Mr. Niraj Kumar	Zee Business		17-Mar-22	Online	CAT A

Share Market updates: Sensex zooms 1,000 points, Nifty crosses 17,250; HDFC, Titan, RIL top gainers	Mr. Niraj Kumar	Business Today	17-Mar-22	Online	CAT A
Share Market updates: Sensex zooms 1,000 points, Nifty crosses 17,250; HDFC, Titan, RIL top gainers	Mr. Niraj Kumar	Indian Express	17-Mar-22	Online	CAT A
Market Highlights: Sensex surges 1,047 points, Nifty settles above 17,250-mark on positive global cues	Mr. Niraj Kumar	5Paisa	17-Mar-22	Online	CAT B



Coverage Interview

Date:	March 10, 2022	Publication:	ET HRWorld
Media:	Online	Page No:	NA
Link: https://hr.economictimes.indiatimes.com/news/workplace-4-0/diversity-and-inclusion/fgili-plans-to-incentivize-diversity-hiring-through-recruitment-partners-and-employee-referrals/90119600			

 ETHRWorld.com

FGILI plans to incentivize diversity hiring through recruitment partners and employee referrals - ETHRWorld



The insurance sector has traditionally been considered male-dominated and there were times when it was one of the sectors that were known for having some branches without even a ladies' washroom. However, slowly but steadily the situation is getting better.

“

Shwetha Ram, Head - Human Resources, Future Generali India Life Insurance (FGILI) reveals the company's plans on women hiring, pro-women initiatives and how the company is establishing a culture of uplifting women employees.

 MONTHLY VISITS **105.3k** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **11k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **152**

Date:	March 15, 2022	Publication:	Human Capital
Media:	Print	Page No:	11
Readership: 50000			



culture and performance of a team might suffer if such behaviour is prevalent and not checked in an organisation.

Why?

Microaggressions are called that because they exist in little corners of our minds and are projected almost without our knowledge. They stem from assumptions that have formed in our minds about people who are different from us – either consciously through experiences we had, or unconsciously through stories and assumptions we picked up from people around us throughout our lives. Some of these biases are intrinsic and subliminal - and yet so harmful and prejudicial to parts of society that someone has to call them out so that people can take another look, learn and change.

What can we do?

The answer obviously is not to ignore the problem because we feel stuck and confused, nor is it to

withdraw oneself from interactions with people who are not like us. That would only worsen the problem of segregation and stereotyping. No one benefits from monochromatic, homogenous groups. We need diversity. Hence, we need to eliminate microaggressions (among other biases and dysfunctions)

Here is a 3-point programme to keep in mind in the context of microaggression – whether we are at the receiving end of it, observe it, or get “called out” for it as an aggressor.

- Acknowledge
- Learn
- Advocate

Acknowledge

The fact is that all of us have biases and we are usually blind to them unless we come face to face with them in certain situations. Human beings have been so successful as a species because our brains make meaning of the world through pattern recognition. To deal with



SHWETHA RAM

Head-Human Resources, Future Generali India Life Insurance Co. Ltd

“COVID-19 ushered in circumstances under which the way women work and live have drastically changed. Being inclusive in our actions is easier said than done however, inclusivity in workplace should be an outcome of structural, and behavioural changes the biggest of which is creating a mindspace for this subject. Workplaces must approach this empathetically and must aim to build a robust support network for women. Workplaces can look at re-evaluating corporate policies and create an ecosystem that impacts women directly while helping them be challenged, heard and supported in their professional growth.”

Date:	March 25, 2022	Publication:	Banking Frontiers
Media:	Print	Page No:	25
Readership: 175000			



Shwetha Ram

and employees. During covid times, employees specifically looked forward to enhanced and better medical and mental health support, in addition to various other expectations. Another significant area of expectation is the need to understand the purpose of everything we do, clearly defined by organizations, and disseminated to staff.

ATTRITION RATE

Future Generali Life Insurance has been the victim of the great resignation trend across the employed workforce. Shwetha shared her experience: "We have experienced pent up attrition of 2020 impacting the 2021 numbers to a large extent. The economy has opened providing employees several options within and outside the sector."

The attrition rate among Fino Payment Bank field employees did stay the same or rather even reduced. Pratima shared: "There was a sudden surge in demand globally for the tech-based talent. Work from anywhere concepts did move talent, and the brunt was faced by us equally like most tech organizations."

TRAINING PROGRAMS

The focus of learning has now shifted largely from what the organization wants employees to learn to what employees would like to learn to not just do their current jobs better but also have the know-how of doing their next job better. Shwetha shares: "At FGILI, our learning agenda

has reskilling & upskilling at the center of it. Data & Digital Acumen were 2 key skills that we have aimed to upskill our employees till 2021 along with the lifetime partner behavior skill. The strategic focus of 2022 and beyond will bring to fore the Skill Transformation across levels."

Priya says: "We have seen that learning new skills, especially in the technical/functional area has created a lot of positive impact amongst our employees. We proactively realized this sentiment and partnered with reputed institutes such as National Insurance Academy (NIA) to provide cutting-edge training to our employees. Some of the training we undertook were - training for claim settlement of electric vehicles, artificial intelligence-based claims processing, product and pricing sophistication for distribution teams, to name a few."

She further added: "Employees see these upskilling programs as value additions to their professional growth. Notably, we launched LinkedIn Learning for all our India employees. With over 13,000 modules to choose from, this unique learning platform was customizable as per individual needs - bite-size learning for on-the-go learner or elaborate training for learnings new skills."

Fino Payment Bank did webinars focussed on health and support during covid times. Further, training programs on task-based nuances for junior roles and leadership development that focused more on personal attributes were conducted. "They not only enabled a level of confidence in the organizational capability of setting out sustainable journeys but brought the teams together to achieve goals. This, in turn, created a significant amount of job satisfaction," adds Pratima.

INCREASING JOB SATISFACTION

Fino Payment Bank focuses on employee well-being and employee-related programs were at the helm. These included regular employee mental health programs, which help build greater confidence of employees in the organization, which in return led to a greater sense of satisfaction, support system infrastructure, and policies to build a conducive environment to help ease out



Pratima Pinto Thomas

work pressures.

According to Pratima, a hybrid model of working helped create work-life balance for employees, improve quality of life along with the decreased fear of covid infection. Leaders with open doors for the teams and skip-level meetings. Increased communication channels to percolate purpose, and goals, apart from help and support.

She further added: "Most importantly, the organization's assurance to staff that the Fino family is with each one of them in these times, allows them to give their best and derive the best out of their roles."

Liberty General Insurance does a monthly eNPS (employee Net Promoter Score) based listening strategy wherein the voice of the employee is heard every month. This helped the company to be tuned in and support the employees evolving aspirations and fine-tune our organizational approach to arrive at a win-win balance.

At FGILI, the endeavor has always been to allow employees to gain maximum exposure on the job by providing them exposure on cross-functional projects, continuously looking at opportunities to digitize and automate processes. Shwetha said: "This has led to a great amount of natural upskilling on the job, which is a primary driver for enhanced job satisfaction. We also measure the learnability index which was at a record high in years 2020 & 2021."

ravi@glocalinfomart.com

Date:	March 29, 2022	Publication:	ET Markets
Media:	Online	Page No:	NA
Link: https://economictimes.indiatimes.com/markets/expert-view/new-set-of-winners-to-lead-next-round-of-rally-investors-must-have-a-margin-of-safety-niraj-kumar/articleshow/90516121.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst			

 The Economic Times 

New set of winners to lead next round of rally; investors must have a margin of safety: Niraj Kumar

"We believe that retail investors should use the current period of consolidation to build equity positions. It is extremely important to identify the risk reward characteristic of the investment opportunity and have margin of safety in an uncertain and volatile environment.

“

- Niraj Kumar, Chief Investment Officer, Future Generali India Life Insurance



 MONTHLY VISITS **38.8m** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **38.1k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **0**

Coverage Author Article

Date:	March 04, 2022	Publication:	The Times of India
Media:	Online	Page No:	NA
Link: https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/author/subhasish-acharya/			

 Times of India Blog

Cautionary practices to help steer you clear of any life insurance scams

With demand for life insurance rising in a post-pandemic world, it is important to understand key factors that one should consider before purchasing a life insurance cover. While a variety of products and insurance providers...



“

-Subhasish Acharya, Chief Distribution Officer, Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.

 MONTHLY VISITS **89.8m** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **80.6k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **0**

Date:	March 28, 2022	Publication:	Dainik Bhaskar
Media:	Online	Page No:	NA
Link: https://www.bhaskar.com/business/news/health-insurance-insurance-to-avoid-insurance-related-fraud-keep-these-5-things-in-mind-including-understanding-the-features-document-properly-129571552.html			

 Dainik Bhaskar

काम की बात: इश्योरेंस से जुड़ी
धोखाधड़ी से बचने के लिए की फीचर्स
डॉक्यूमेंट को ठीक से समझने सहित इन
5 बातों का रखें ध्यान



वैश्विक महामारी के बाद लाइफ इश्योरेंस की मांग काफी बढ़ गई है।

हालांकि मार्केट में दर्जनों लाइफ इश्योरेंस कंपनियां और सैकड़ों प्रोडक्ट

मौजूद हैं, जिनकी वजह से यह तय करना मुश्किल होता है कि कौन सा इश्योरेंस आपके लिए सही है। अक्सर लोग बीमा संबंधी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। | health insurance, insurance, हेल्थ इश्योरेंस, इश्योरेंस,

 MONTHLY VISITS 29.9m powered by SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS 103.1k

 SOCIAL ENGAGEMENT 289

Date:	March 28, 2022	Publication:	Dainik Bhaskar (12 Editions)
Media:	Print	Page No:	11
Readership: 18316204			

कंज्यूमर अलर्ट

बीमा संबंधी धोखाधड़ी से बचने के लिए अपनाएं ये सावधानियां



वैश्विक महामारी के बाद लाइफ इंश्योरेंस की मांग काफी बढ़ गई है। हालांकि मार्केट में दर्जनों लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां और सैकड़ों प्रॉडक्ट मौजूद हैं, जिनकी वजह से यह तय करना मुश्किल होता है कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए सही है। अक्सर लोग बीमा संबंधी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। यहां हम कुछ सुझाव दे रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने लिए या परिवार के लिए सबसे उपयुक्त लाइफ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट चुन सकते हैं। साथ ही चोटले या एजेंटों की ओवर-सेलिंग और मिस-सेलिंग का शिकार होने से भी बच सकते हैं।

• **की फौचर्स डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें** - आमतौर पर उपभोक्ता इंश्योरेंस खरीदने से पहले उसके की-फौचर्स डॉक्यूमेंट्स (केएफडी) नहीं पढ़ते हैं। यह बड़ी गलती है। लाइफ इंश्योरेंस के सभी प्रॉडक्ट्स के साथ पॉलिसी जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक के लिए प्री-लुक अवधि होती है। पॉलिसीधारक को यदि लगता है कि इंश्योरेंस उनकी जरूरतों के लिए उपयुक्त नहीं है या उन्हें केएफडी में उल्लिखित बातों से अलग बातें कह कर बेचा था तो ये 15 दिनों के भीतर खरीदी गई पॉलिसी को निरस्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। निरस्तीकरण आक्ट्स की प्रोसेसिंग के बाद चुकाया गया प्रीमियम वापस कर दिया जाता है और वैधानिक कटौतियों के बाद बाकी रकम रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।

• **प्रलोभन वाले कोल्स को नजरअंदाज करें** - आपका डेडा कई इंश्योरेंस एजेंट्स या दुर्धनपूर्ण कंपनियों की पहुंच में हो सकता है। ऐसे लोग आपका मौजूद इंश्योरेंस जरूरत से कम होने का हवाला देकर आपसे अपनी पॉलिसी को अद्योद करने या बदलने का अनुरोध कर सकते हैं। यदि आपने पॉलिसी खरीदने के पहले उचित रिसर्च और रिसर्च की है तो बस समय पर प्रीमियम का भुगतान करते रहना ही आपके हित में है।

• **परिवार के निकट सदस्यों को हमेशा सूचित रखें** - परिवार के सदस्यों को आपके द्वारा खरीदी गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, ताकि आपके नहीं रहने पर वे इसका लाभ उठा सकें। पॉलिसी दस्तावेज को डिजिटल और कागजी, दोनों रूप में स्टोर कर लें ताकि जरूरत के समय इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। मृत्यु की स्थिति में बीमा से प्राप्त रकम का कैसे उपयोग करना है, इसके विषय में भी परिवार के सदस्यों को विस्तार से बता देना चाहिए, ताकि वे पैसों का ज़रूरतमानी से उपयोग कर सकें। अपनी बीमा पॉलिसी और इसे जारी करने वाले बीमाकर्ता के सम्बन्ध में ताज़ा जानकारी रखना हमेशा फायदेमंद होता है। प्रमाणित सलाहकारों पर यकीन करना बेहतर है। सतर्क रहकर ही धोखाधंधा और दुर्धनपूर्ण लोगों की कोशिशों को नास्तम कर सकते हैं।

• **लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत को समझें** - इंश्योरेंस खरीदने से पहले इस बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि आप पॉलिसी क्यों खरीद रहे हैं और इसके कवर और कवर की अवधि को अच्छी तरह सोच-समझ कर तय करना चाहिए। अधिकांश लोग प्रीमियम बचाने के इरादे से अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए या अगर्गीत कवर और सम इंश्योरेंस के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं। किसी व्यक्ति को कितने मूल्य के लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है इसकी गणना इस आधार पर की जाती है कि उसके परिवार की वर्तमान जीवनशैली के खर्च क्या हैं और भविष्य में उनमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सामान्य नियम यह है कि बीमित राशि आपको सालाना आय का कम-से-कम 20 गुना होनी चाहिए। हालांकि इस संबंध में किसी भरोसेमंद पेशेवर की सलाह लेना सबसे बढ़िया तरीका है।

• **सही लाइफ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट का चुनाव** - मार्केट में उपलब्ध कौन सा प्लान आपके अनुकूल है इसको समझना जरूरी है। आम तौर पर टर्म इंश्योरेंस, परम्परागत प्लान और यूनिट लिंक्ड बीमा प्लान (यूएलिस) को विक्रो सबसे अधिक होती है। टर्म इंश्योरेंस विशुद्ध सुरक्षा के लिए होता है और इसे यदि जल्दी यानी कम उम्र में ले लिया जाए तो सबसे कम प्रीमियम लगता है। चाहे तो गैर-बीमारी कवरेज, टर्म्टनजनिट मृत्यु लाभ या पॉलिसी मैथ्यर होने पर उत्तरजीवित लाभ के लिए अतिरिक्त राइडर भी चुन सकते हैं। वहीं परम्परागत योजनाएं या तो बीमा के वरीर गारंटीशुद्ध हो सकती हैं या फिर हर साल बीमा की धोषणा क्ली हो सकती हैं। यूनिट लिंक्ड प्लान एक तरह से बीमा और निवेश का संयोजन होते हैं, लेकिन इनके विषय में सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इनका रिटर्न सुनिश्चित नहीं होता।

सुभाषीण आचार्य
चीफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर,
फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ
इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

Date:	March 28, 2022	Publication:	Divya Bhaskar (2 Editions)
Media:	Print	Page No:	11
Readership: 18316204			

કચ્છગુમર એલર્ટ

વીમા સંબંધિત છેતરપિંડીથી બચવા આ સાવચેતીને ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી



વૈધિક મહામારી માઠ સમગ્ર વિશ્વમાં જીવન વીમાની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. બજારમાં ડાનથી વધુ જીવન વીમા કંપનીઓ અને સેક્ટરો પ્રોક્ટરસ ઉપલબ્ધ છે, જેના કારણે, ખાસ કરીને પ્રથમ વખત વીમા ખરીદનારો સમયાંતરે સામનો કરી રહ્યા છે અને તેઓ વીમા સંબંધિત છેતરપિંડીનો શિકાર બની રહ્યા છે. તેમને જરૂરિયાત કરતાં ઓછો અથવા બિનજરૂરી વીમો લેવામાં આવી રહ્યો છે. પ્રથમ વખત વીમા ખરીદવા પહેલાં ક્યા પરિબલોને ધ્યાનમાં રાખવા તે નક્કી કરવું પણ મુશ્કેલ છે. અહીં કેટલીક ટિપ્સ છે જે તમે તમારા અથવા તમારા પરિવાર માટે સૌથી યોગ્ય જીવન વીમા ઉપાકન પસંદ કરવા માટે અનુસરી શકો છો. સીબીએ અથવા તેમજ એજન્ટના ઓવર-સેલિંગનો ભોગ બનતાં બચી શકો છો.

- **ક્રી કીવર્સ ડેક્યુમેન્ટ (KFD) જરૂરી વાંચો:** સામાન્ય રીતે ગ્રાહક વીમો ખરીદતા પહેલાં ક્રી કીવર્સ ડેક્યુમેન્ટ વાંચતા નથી. જે સૌથી મોટી ભૂલ સાબિત થઈ શકે છે. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સની તમામ પ્રોક્ટરસ પોલિસી શરૂ થવાની તારીખથી 15 દિવસ સુધીનો ફ્રી-લુક સમયગાળો હાથમે છે. પોલિસી ધારક 15 દિવસની અંદર ખરીદેલી પોલિસી રદ કરી શકે છે. જો તેને લાગે કે વીમો તેમની જરૂરિયાતો માટે યોગ્ય નથી અથવા જો તે KFDમાં દર્શાવેલા નિયમો કરતાં અલગ નોંધ પર લેવામાં આવ્યો હોય તો પસ તેને રદ કરી શકે છે. જેના માટે અરજી પર પ્રતિબંધ ક્યાં પછી ચુસ્ત પ્રતિબંધ રિક્લ કરવામાં આવે છે અને અપુક ક્યાત પછી રકમ રીફાઈન્ડ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.
- **એજન્ટના કોલ્કને અવગણો:** તમારી માહિતી વીમા એજન્ટ અને અથવા છેતરપિંડી કરનારનો પોલિસી હોલનાં મુદ્દાથી લાક્ષણિક છે. અથવા લોકો તમારો હાલનો વીમા જરૂરિયાત કરતાં ઓછો હોવાને કારણે તમારી પોલિસીને અવગણ કરવા અથવા બદલવાની નિતીની કરે છે. જો તમે પોલિસી ખરીદતા પહેલાં યોગ્ય રિસર્ચ કરો છો, તો ફક્ત સમયસર પ્રતિબંધ ચુસ્તવાનું ચાલુ રાખવું તમારા કિસ્સા છે.
- **ઈમેલ આશિરી અને નજીકના પરિવારના સભ્યોને જાણ કરો:** તમારા પરિવારના સભ્યો તમારા દ્વારા ખરીદેલી જીવન વીમા પોલિસીથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ હોવા જોઈએ જેથી તેઓ તમારી ગેરલાજરીમાં લાભ મેળવી શકે. પોલિસી ઇસ્ટાબ્લિશ્મેન્ટ ડિજિટલ અને ડિજિટલ સ્વરૂપે સંગ્રહિત કરવું શ્રેષ્ઠ છે જેથી જરૂરિયાત સમયે તેઓ સરકારથી એક્સેસ કરી શકાય. પરિવારના સભ્યોનું જુનુના ડિસ્કમાં વીમામાંથી મહેલી રકમનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે વિશે પણ ચિત્તવન રાખવું જોઈએ, જેથી તેઓ તેમના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે રકમનો સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરી શકે. તમારી વીમા પોલિસી અને તેને જારી કરનાર વીમાદાતાના સંબંધમાં નવા અપરોક્ષાતથી વાકેફ રહેવું સંમયા હાથકાઠાકાર છે. પરિચિત અને પ્રમાણિત સલાહકારો પર વિશ્વાસ કરવો વધુ યોગ્ય છે.
- **લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સની જરૂરિયાતો સમજો:** જીવન વીમાનું મૂલ્ય જે ભવિષ્યને જરૂરી છે તેની ગણતરી તેના પરિવારના વર્તમાન જીવનશૈલી ખર્ચ અને ભવિષ્યમાં તે કેટલી લગી શકે છે તેના આધારે કરવામાં આવે છે. આ માટે, સંબંધિત ભવિષ્યના જુનુની કિંમતમાં કેટલું કવર (વીમા કવરેજ) પૂરું રહેશે. મોટા ભાગના લોકો સમાજમાં ક્રમ ગણા માટે વીમા પોલિસી ખરીદે છે અથવા અપુરવું કવર અને પ્રતિબંધ મરણવનના ઉપાદ સાથે વીમો ખરીદે છે. વીમો ખરીદતા પહેલાં, તમે પોલિસી શા માટે ખરીદી રહ્યા છો તેની સ્પષ્ટ સમજ હોવી જોઈએ અને તેના કવર અને કવરનો સમયગાળો હાથકાઠાકાર નક્કી કરો. જો રોકા મૂલ્ય અથવા એન્ડોમેન્ટ ધ્યાન ખરીદવામાં આવી રહ્યા હોય, તો તે ખરીદીના હેતુઓને પૂર્ણ કરો કે કેમ તેનું મૂલ્યાંકન કરવું ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. સામાન્ય નિયમ તરીકે, વીમાની રકમ તમારી વાર્ષિક આવક કરતાં ઓછામાં ઓછી 20 ગણી હોવી જોઈએ. વિશ્વનીય એવાઈરની સલાહ લઈ શકો છો.
- **યોગ્ય લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સની પસંદગી કરો:** બજારમાં ઉપલબ્ધ સેક્ટરો વિશ્વમાંથી તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર શું યોગ્ય છે તે ઘોષો. કઈ યોજના તમને અનુકૂળ છે તેની ઊંડી સમજ હોવી જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ (ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ), ડ્રેડિસનલ ધ્યાન અને પુનઃનિલિપ્ત ઇન્સ્યોરન્સ ધ્યાન (પુલિસ) એ પ્રોક્ટરસ છે જે સૌથી વધુ વચે છે. તેમ છતાં તેઓ એક્સિડન્ટ સંપૂર્ણપણે અલગ છે. ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ કવર સુરક્ષા માટે છે અને જો વહેલું લેવામાં આવે તો તેથી કે નાની ઉંમરે, તો સૌથી ઓછું પ્રતિબંધ વસૂલામાં આવે છે, જો ડિવિડન્ડ હોય તો વધારાના રાઈસ્ટને પણ પસંદ કરી શકાય છે. જેમાં ગેન્ટિલ મીમારી કરવું માટે પ્રતિબંધના તબક્કા સાથેની પોલિસી, આલિફિકેટ મુખ્ય લાભ અથવા પોલિસીની પાઠવી મુદત પર સર્વાઈવલ લાભનો સમાવેશ થાય છે.

ધાર્ડર એક્સપર્ટ  **સુભાષિન સામાયં**
શીલ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફિસર, ઇયુમર
જનરલ ઇન્ડિયા લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ
કંપની લિમિટેડ



Coverage Press Release

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	Mint
Journalist:	Reuters	Page No:	9
Readership:			

Generali holds 68% stake in India Life JV

Generali has completed a deal to become the majority shareholder in its Future Generali India Life (FGIL) joint venture, the Italian insurer said on Wednesday.

Generali has paid some 26 million euros (\$29 million) for a stake of around 16% held by Industrial Investment Trust Limited (IITL) in the Indian business and now holds a stake of around 68% in FGIL after subscribing for additional shares.

It may increase its stake to 71% by the end of 2022, it added in a statement.

“This acquisition is in line with Generali’s strategy to reinforce its position in a high potential market,” said Jaime Anchústegui Melgarejo, CEO, International of Generali.

Generali is in the midst of a power struggle with rebel shareholders challenging the board’s plan to retain chief executive Philippe Donnet for a new term.

REUTERS


Published Date:	March 31, 2022	Publication:	The Financial Express
Journalist:	PTI	Page No:	9
Readership:			

Generali becomes majority shareholder in Indian life insurance joint venture

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, March 30

ITALIAN FINANCIAL SERVICES firm Generali on Wednesday said it has become the majority shareholder of the Indian life insurance joint venture following all the regulatory approval. The company has completed the acquisition of the entire stake of around 16% held by Industrial Investment Trust (IITL) in Future Generali India Life (FGIL) and the subscription of additional shares in FGIL, following receipt of all necessary approvals from the relevant regulatory and competition authorities.

Generali now holds around 68% in FGIL, which may increase to 71% by the end of 2022, following further subscription of shares, the company said in a statement. Generali is the first player among international insurers to step-up to a majority shareholder position in its Indian joint venture since the new foreign ownership cap came into effect. Last year, the government amended the Insurance Amendment Bill, 2021 to increase the foreign direct investment (FDI) limit in the insurance sector to 74%



Increasing stake

- Company has completed the acquisition of the entire stake of around **16%** held by Industrial Investment Trust in Future Generali India Life (FGIL) and the subscription of additional shares in FGIL

- Generali now holds around **68%** in FGIL

- This may increase to **71%** by the end of 2022, following further subscription of shares

from 49%. The deal is expected to strengthen Generali's position in fast-growing markets and confirms the group's commitment to deliver profitable growth whilst creating value for customers.

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	Dainik Adhikar
Journalist:	Agencies	Page No:	5
Readership:			

जेनेराली ने अपने भारतीय जीवन बीमा संयुक्त उपक्रम का प्रमुख हिस्सेदार बनने के लिये ट्रांजैक्शन पूरा किया

जयपुर (एजेंसी)। मिलान- जेनेराली ने संबद्ध विनियामक एवं प्रतिस्पर्द्धा प्राधिकारियों से सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ मिलने के बाद फ्यूचर जेनेराली इंडिया लाइफ इश्योरेन्स (एफजीआईएल) में इंडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड (आईआईटीएल) की संपूर्ण हिस्सेदारी (लगभग 16%) का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। साथ ही एफजीआईएल में अतिरिक्त शेयरों का अभिदान (सब्सक्रिप्शन) भी पूरा कर लिया गया है। अब जेनेराली की एफजीआईएल में लगभग 68% हिस्सेदारी है, जो जेनेराली द्वारा शेयरों के आगामी अभिदान के बाद 2022 के अंत तक 71% तक बढ़ सकती है। यह डील पूरी तरह से 'लाइफटाइम पार्टनर 24: ड्राइविंग ग्रोथ' रणनीति के अनुरूप है, जो तेजी से बढ़ रहे बाजारों में जेनेराली की स्थिति को सुदृढ़ करती है और ग्राहकों के लिये महत्व का निर्माण करते हुए लाभकारी वृद्धि प्रदान करने की गुरु की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। जेनेराली के सीईओ इंटरनेशनल जैमी अंचुस्तेगुइ मेलगारेजो ने कहा: यह अधिग्रहण उच्च संभावना के बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिये जेनेराली की रणनीति के अनुरूप है। हम भारत में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं और भारतीय ग्राहकों की बढ़ती हिस्सेदारी में उनका लाइफटाइम पार्टनर बनने की आशा करते हैं। जेनेराली एशिया के रीजनल ऑफिसर रॉब लियोनार्डी ने कहा: हम उत्साहित हैं कि अब हम अपने भारतीय जीवन बीमा संयुक्त उपक्रम में अपनी स्थिति को मजबूती देने में पूरी तरह सक्षम हैं। साथ ही अपने ग्राहकों, एजेंटों, भागीदारों और वितरकों के लिये ज्यादा महत्व निर्मित कर सकते हैं।

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	Dainik Bhaskar
Journalist:	Agencies	Page No:	11
Readership: 18316204			

अधिग्रहण • जेनेराली इंडिया आईआईटीएल में हिस्सेदारी खरीद कर भारत में विस्तार करेगी भारतीय बाजार में नई सेवाएं प्रदान करेगी जेनेराली

भारत न्यूज़ | नई दिल्ली

मिलान- जेनेराली ने संबद्ध विनियामक एवं प्रतिस्पर्धा अधिकारियों से सभी आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के बाद फ्यूचर जेनेराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस (एफजीआईएल) में इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड (आईआईटीएल) की संपूर्ण हिस्सेदारी (लगभग 16%) का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। साथ ही एफजीआईएल में अतिरिक्त शेयरों का अभिदान (सम्पत्ति) भी पूरा कर लिया गया है। अब जेनेराली की एफजीआईएल में लगभग 68% हिस्सेदारी है, जो जेनेराली द्वारा शेयरों के आगामी अभिदान के बाद 2022 के अंत तक 71% तक बढ़ सकती है। कंपनी लगातार इस दिशा में

नई संभावनाओं की तलाश कर रही है और नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत है। यह डील पूरी तरह से 'लाइफटाइम पार्टनर 24: ड्राइविंग ग्रोथ' रणनीति के अनुरूप है, जो तेजी से बढ़ रहे बाजारों में जेनेराली की स्थिति को सुदृढ़ करती है और ग्राहकों के लिये महत्व का निर्माण करते हुए लाभकारी वृद्धि प्रदान करने की ग्रुप की प्रतिबद्धता को पुष्टि करती है। जेनेराली के सीईओ इंटरनेशनल जैमी अंचुस्तेगुड मैलगरंजो ने कहा कि यह अधिग्रहण उच्च संभावना के बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिये जेनेराली की रणनीति के अनुरूप है। हम भारत में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं और भारतीय ग्राहकों की

नई संभावनाओं को तलाश रही है कंपनी

फ्यूचर जेनेराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के अंतरिम सीईओ मिरंजीत मुखर्जी ने कहा कि यह भारत के बीमा उद्योग में अपने तरह की पहली नई शुरुआत है, जो हमने देखी है और हमारा मानना है कि इस रणनीतिक भागीदारी से हम अपने बीमा व्यवसाय को नई ऊँचाई पर ले जा सकेंगे। हमें यकीन है कि इससे हमारे सभी हितधारकों, प्रतिष्ठित ग्राहकों, कर्मचारियों और विश्वसनीय वितरण भागीदारों को फायदा होगा और यह सभी कंपनी के विकास में मदद करेगा।

बढ़ती हिस्सेदारी में उनका लाइफटाइम पार्टनर बनने की आशा करते हैं। जेनेराली एशिया के रीजनल ऑफिसर रॉब लियोनार्डी ने कहा कि "हम उत्साहित हैं कि अब हम अपने भारतीय जीवन बीमा संयुक्त उपक्रम में अपनी स्थिति को मजबूती देने में पूरी तरह सक्षम हैं। साथ ही अपने ग्राहकों, एजेंटों, भागीदारों

और वित्तकों के लिये ज्यादा महत्व निर्मित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारतीय बीमा ग्राहकों को उनकी जरूरतों के अनुसार नए बीमा समाधान और अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम भारतीय ग्राहकों के लिए लगातार इन सेवाओं का विस्तार भी कर रहे हैं।

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	Navbharat Times
Journalist:	Agencies	Page No:	9
Readership: 597900			

जेनेराली ने IATL का अधिग्रहण किया

■ बिजनेस डेस्क, मुंबई: फ्यूचर जेनेराली इंडिया लाइफ इश्योरेन्स (एफजीआईएल) में इंडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड (आईआईटीएल) की संपूर्ण हिस्सेदारी (लगभग 16%) का अधिग्रहण पूरा हो गया है। सीईओ इंटरनेशनल जैमी अंचुस्तेगुइ मेलगारैजो ने कहा कि जेनेराली की एफजीआईएल में लगभग 68% हिस्सेदारी हो गई है।

REDMI NOTE 9 PRO
QUAD CAMERA

2022/4/1 08:09

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	Dainik Navjyoti
Journalist:	Agencies	Page No:	9
Readership: 800000			

जेनेराली हिस्सेदार बनने को तैयार

जयपुर। मिलान-जेनेराली ने संबद्ध विनियामक एवं प्रतिस्पर्द्धा प्राधिकारियों से सभी आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के बाद फ्यूचर जेनेराली इंडिया लाइफइंश्योरेन्स (एफजीआईएल) में इंडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड (आईआईटीएल) की संपूर्ण हिस्सेदारी (लगभग 16 फीसदी) का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। साथ ही एफजीआईएल में अतिरिक्त शेयरों का अभिदान (सब्सक्रिप्शन) भी पूरा कर लिया गया है।

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	Jaipur Evening Post
Journalist:	Agencies	Page No:	9
Readership: 800000			

**जेनेराली ने अपने भारतीय
जीवन बीमा संयुक्त
उपक्रम का प्रमुख
हिस्सेदार बनने के लिये
ट्रांज़ैक्शन पूरा किया**

जयपुर। मिलान- जेनेराली ने संबद्ध विनियामक एवं प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों से सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ मिलने के बाद फ्यूचर जेनेराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस (एफजीआईएल) में इंडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड (आईआईटीएल) की संपूर्ण हिस्सेदारी (लगभग 16%) का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। साथ ही एफजीआईएल में अतिरिक्त शेयरों का अभिदान (सब्सक्रिप्शन) भी पूरा कर लिया गया है। अब जेनेराली की एफजीआईएल में लगभग 68% हिस्सेदारी है, जो जेनेराली द्वारा शेयरों के आगामी अभिदान के बाद 2022 के अंत तक 71% तक बढ़ सकती है।

यह डील पूरी तरह से 'लाइफटाइम पार्टनर 24' ड्राइविंग ग्रोथ' रणनीति के अनुरूप है, जो तेजी से बढ़ रहे बाजारों में जेनेराली की स्थिति को सुदृढ़ करती है और ग्राहकों के लिये महत्व का निर्माण करते हुए लाभकारी वृद्धि प्रदान करने की रणनीति की प्रतिबद्धता को पुष्टि करती है। जेनेराली के सीईओ इंटरनेशनल जैमी अंचुस्तेगुड मेलगारेजो ने कहा- यह अधिग्रहण उच्च संभावना के बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिये जेनेराली की रणनीति के अनुरूप है। हम भारत में अपनी मौजूदगी को बाने के लिए तत्पर हैं और भारतीय ग्राहकों की बढ़ती हिस्सेदारी में उनका लाइफटाइम पार्टनर बनने की आशा करते हैं।

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	The Economic Times
Journalist:	PTI	Page No:	NA
Link: https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/insure/generali-becomes-majority-shareholder-in-indian-life-Insurance-joint-venture/articleshow/90544387.cms			

 The Economic Times 

Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture

The company has completed the acquisition of the entire stake of around 16 per cent held by Industrial Investment Trust Limited (IITL) in Future Generali India Life (FGIL) and the subscription of additional shares in FGLI, following receipt of all necessary approvals from the relevant regulatory and competition authorities.



 MONTHLY VISITS **38.8m** powered by 

 COVERAGE VIEWS **39.8k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **27**

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	Business Standard
Journalist:	PTI	Page No:	NA
Link: https://www.business-standard.com/article/companies/generali-becomes-majority-shareholder-in-indian-life-insurance-jv-122033001052_1.html			

BS Business-standard 

Generali becomes majority shareholder in Indian Life Insurance JV



Generali said it has completed the acquisition of the entire stake (about 16%) held by Industrial Investment Trust Limited (IITL) in Future Generali India Life (FGIL) and the subscription of additional shares in FGLI, following receipt of all necessary approvals from the relevant regulatory and competition authorities.

 MONTHLY VISITS **13.5m** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **21.9k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **7**

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	The Hindu Business line
Journalist:	PTI	Page No:	NA
Link: https://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/generali-is-majority-shareholder-in-future-general-india-lifeinsurance/article65273357.ece			

BL Thehindubusinessline

Generali is majority shareholder in Future Generali India Life Insurance



Generali said it has completed the acquisition of the entire stake (about 16%) held by Industrial Investment Trust Limited (IITL) in Future Generali India Life (FGIL) and the subscription of additional shares in FGLI, following receipt of all necessary approvals from the relevant regulatory and competition authorities.

MONTHLY VISITS 4.9m powered by SimilarWeb

COVERAGE VIEWS 9.6k

SOCIAL ENGAGEMENT 7

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	The Times of India
Journalist:	PTI	Page No:	NA

Link: <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/generali-becomes-majority-shareholder-in-indian-life-insurance-joint-venture/articleshow/90550068.cms>

 The Times of India 

general: Generali becomes majority shareholder in Indian life insurance joint venture - Times of India

Generali said it has completed the acquisition of the entire stake (about 16%) held by Industrial Investment Trust Limited (IITL) in Future Generali India Life (FGIL) and the subscription of additional shares in FGIL, following receipt of all necessary approvals from the relevant regulatory and competition authorities.




 MONTHLY VISITS **89.8m** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **82.4k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **30**

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	ET BFSI
Journalist:	PTI	Page No:	NA
Link: https://bfsi.economictimes.indiatimes.com/news/insurance/generali-becomes-majority-shareholder-in-indian-life-insurance-joint-venture/90551586			



Generali becomes majority shareholder in Indian life insurance joint venture - ET BFSI

Generali said it has completed the acquisition of the entire stake (about 16%) held by Industrial Investment Trust Limited (IITL) in Future Generali India Life (FGIL) and the subscription of additional shares in FGLI, following receipt of all necessary approvals from the relevant regulatory and competition authorities.



 MONTHLY VISITS **174.3k** powered by 

 COVERAGE VIEWS **155**

 SOCIAL ENGAGEMENT **0**

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	The Hindu
Journalist:	PTI	Page No:	NA
Link: https://www.thehindu.com/business/generali-acquires-majority-stake-in-india-life-insurance-jv/article65275559.ece			

TH Thehindu

Generali acquires majority stake in India life insurance JV

Generali said it has completed the acquisition of the entire stake (about 16%) held by Industrial Investment Trust Limited (IITL) in Future Generali India Life (FGIL) and the subscription of additional shares in FGLI, following receipt of all necessary approvals from the relevant regulatory and competition authorities.



 MONTHLY VISITS 26.8m powered by SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS 32.6k

 SOCIAL ENGAGEMENT 14

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	Outlook India
Journalist:	PTI	Page No:	NA
Link: https://www.outlookindia.com/business/generali-acquires-majority-stake-in-future-general-india-life-news-189236			

<https://www.outlookindia.com/>

Generali Acquires Majority Stake In Future Generali India Life

Generali said it has completed the acquisition of the entire stake (about 16%) held by Industrial Investment Trust Limited (IITL) in Future Generali India Life (FGIL) and the subscription of additional shares in FGLI, following receipt of all necessary approvals from the relevant regulatory and competition authorities.



MONTHLY VISITS 4.2m powered by SimilarWeb

COVERAGE VIEWS 10.1k

SOCIAL ENGAGEMENT 16

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	NDTV
Journalist:	PTI	Page No:	NA
Link: https://www.ndtv.com/business/generali-becomes-majority-shareholder-in-indian-life-insurance-joint-venture-2852507			

 NDTV.com

Majority Stake In Indian Life Insurance Joint Venture Owned By Generali

Generali said it has completed the acquisition of the entire stake (about 16%) held by Industrial Investment Trust Limited (IITL) in Future Generali India Life (FGIL) and the subscription of additional shares in FGLI, following receipt of all necessary approvals from the relevant regulatory and competition authorities.



 MONTHLY VISITS **154.4m** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **183.9k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **7**

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	Asia Insurance
Journalist:	PTI	Page No:	NA
Link: https://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/79768/Type/eDaily/India-Generali-now-controls-life-joint-venture-with-68-stake			

 Asia Insurance Review 

India: Generali now controls life joint venture with 68% stake

Generali said it has completed the acquisition of the entire stake (about 16%) held by Industrial Investment Trust Limited (IITL) in Future Generali India Life (FGL) and the subscription of additional shares in FGLI, following receipt of all necessary approvals from the relevant regulatory and competition authorities.



 MONTHLY VISITS **21.1k** powered by 

 COVERAGE VIEWS **886**

 SOCIAL ENGAGEMENT **0**

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	Insurance Business Magazine
Journalist:	PTI	Page No:	NA
Link: https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/breaking-news/generali-becomes-majority-shareholder-of-india-life-joint-venture-400724.aspx			

 Insurancebusinessmag 

Generali becomes majority shareholder of India Life joint venture



Generali said it has completed the acquisition of the entire stake (about 16%) held by Industrial Investment Trust Limited (IITL) in Future Generali India Life (FGIL) and the subscription of additional shares in FGLI, following receipt of all necessary approvals from the relevant regulatory and competition authorities.

 MONTHLY VISITS **319.9k** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **2.6k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **14**

Published Date:	March 31, 2022	Publication:	The Quint
Journalist:	PTI	Page No:	NA
Link:	https://thequint.site/majority-stake-in-indian-life-insurance-joint-venture-owned-by-general/		

 Get Latest News, India News, Breaking News, Today's News - NDTV.com 

Majority Stake In Indian Lifestyles Insurance coverage Joint Project Owned Through Generali

Generali said it has completed the acquisition of the entire stake (about 16%) held by Industrial Investment Trust Limited (IITL) in Future Generali India Life (FGIL) and the subscription of additional shares in FGLI, following receipt of all necessary approvals from the relevant regulatory and competition authorities.



Date:	March 31, 2022	Publication:	Devdiscourse
Media:	PTI	Page No:	NA
Link: https://www.devdiscourse.com/article/business/1983395-general-1-becomes-majority-shareholder-in-indian-life-Insurance-joint-venture			



Generali becomes majority shareholder in Indian life Insurance joint venture | Business



Generali said it has completed the acquisition of the entire stake (about 16%) held by Industrial Investment Trust Limited (IITL) in Future Generali India Life (FGL) and the subscription of additional shares in FGLI, following receipt of all necessary approvals from the relevant regulatory and competition authorities.

 MONTHLY VISITS **1.2m** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **7.2k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **0**

Date:	March 31, 2022	Publication:	Navbharat Times
Media:	PTi	Page No:	NA
Link: https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/generali-becomes-majority-shareholder-in-life-insurance-joint-venture-of-india/articleshow/90546848.cms			

 Navbharat Times 

जनरली भारतीय जीवन बीमा संयुक्त उद्यम में बहुलांश शेयरधारक बनी

नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) इटली की वित्तीय सेवा कंपनी जनरली ने बुधवार को कहा कि वह सभी नियामकीय मंजूरीयों के बाद भारतीय जीवन बीमा संयुक्त उद्यम की बहुलांश शेयरधारक बन गई है। कंपनी ने प्यूसर जनरली इंडिया लाइफ (एफजीआईएल) में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड (आईआईटीएल) की लगभग 16 फीसदी



 MONTHLY VISITS **49.3m** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **44.6k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **0**

Date:	March 31, 2022	Publication:	The Print
Media:	The Print Hindi	Page No:	NA
Link: https://hindi.theprint.in/india/economy/generali-becomes-majority-shareholder-in-life-insurance-joint-venture-of-india/300579/			

 ThePrint Hindi

जनरली भारतीय जीवन बीमा संयुक्त उद्यम में बहुलांश शेयरधारक बनी

नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) इटली की वित्तीय सेवा कंपनी जनरली ने बुधवार को कहा कि वह सभी नियामकीय मंजूरीयों के बाद भारतीय जीवन बीमा संयुक्त उद्यम की बहुलांश शेयरधारक बन गई है। कंपनी ने फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ (एफजीआईएल) में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड (आईआईटीएल) की लगभग 16 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण और एफजीएलआई [...]



 MONTHLY VISITS **750.7k** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **2.3k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **0**



Coverage Industry Stories

Date:	March 31, 2022	Publication:	The Economic Times
Media:	Online	Page No:	NA
Link: https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/will-retail-flows-stay-strong-if-d-st-stays-dull-for-another-6-months/articleshow/90539015.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst			

 The Economic Times

Will retail flows stay strong if D-St stays dull for another 6 months?

"These new investors have not seen any downturn or panic. How they react during these testing times will actually decide if this is the new cult or just a fad. A

key factor leading to retail participation is the lack of other lucrative investment avenues. With SIP holding up at strong levels, we believe retail investor participation will continue and are likely to have a sizable portion of the total investments going forward," Kumar said.



“

- Niraj Kumar, Chief Investment Officer, Future Generali India Life Insurance

 MONTHLY VISITS **38.8m** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **38.1k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **0**

Date:	March 31, 2022	Publication:	Mint
Media:	Online	Page No:	NA
Link: https://www.livemint.com/market/stock-market-news/what-us-federal-reserve-s-rate-hike-means-for-indian-stock-markets-11647494766892.html			



Why Sensex, Nifty soared today despite US Fed's first rate hike in 3 years



Fed has embarked on rate hiking cycle and has guided for an aggressive normalization, as it

deems to be the quintessential tool to normalize high Inflation. The aggressive rate hike outlook

has come in response to U.S. witnessing a run-away Inflation exacerbated by rising commodity prices led by Geopolitical tensions & supply disruptions and posed with downside risks to global growth. However, with Fed alluding that economy is on a strong footing and that growth is strong, we reckon the rate hike cycle will be navigated much better this time. From Indian markets standpoint, while the impending Fed rate hike has already resulted in strong selling by FII's in the last few months, the strong support by DII's has to a great extent mitigated the impact of FII sellina. We reckon the markets will take this rate hike cvcle in its stride. as prospects remains

MONTHLY VISITS **45.6m** powered by **SimilarWeb**

COVERAGE VIEWS **68.4k**

SOCIAL ENGAGEMENT **27**

Date:	March 31, 2022	Publication:	The Economic Times
Media:	Online	Page No:	NA
Link: https://economictimes.indiatimes.com/sensex-nifty-live-today-2022-03-17/liveblog/90280680.cms			

 The Economic Times 

Stock Market Highlights: Nifty forms bullish candle. What does it signal for Monday's session? - The Economic Times



Fed has embarked on rate hiking cycle and has guided for an aggressive normalization, as it

deems to be the quintessential tool to normalize high Inflation. The aggressive rate hike outlook has come in response to U.S. witnessing a run-away Inflation exacerbated by rising commodity prices led by Geopolitical tensions & supply disruptions and posed with downside risks to global growth. However, with Fed alluding that economy is on a strong footing and that growth is strong, we reckon the rate hike cycle will be navigated much better this time. From Indian markets standpoint, while the impending Fed rate hike has already resulted in strong selling by FII's in the last few months, the strong support by DII's has to a great extent mitigated the impact of FII

 MONTHLY VISITS **38.8m** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **41k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **41**

Date:	March 31, 2022	Publication:	Zee Business
Media:	Online	Page No:	NA
Link: https://www.zeebiz.com/india/news-us-fed-rate-hike-impact-on-india-prospects-remain-strong-despite-inflationary-headwinds-india-on-cusp-of-sustained-revival-say-experts-181102			

 Zee Business 

US Fed rate hike impact on India: Prospects remain strong despite inflationary headwinds; India on cusp of sustained revival, say experts



Fed has embarked on rate hiking cycle and has guided for an aggressive normalization, as it deems to be the quintessential tool to normalize high Inflation. The aggressive rate hike outlook has come in response to U.S. witnessing a run-away Inflation exacerbated by rising commodity prices led by Geopolitical tensions & supply disruptions and posed with downside risks to global growth. However, with Fed alluding that economy is on a strong footing and that growth is strong, we reckon the rate hike cycle will be navigated much better this time. From Indian markets standpoint, while the impending Fed rate hike has already resulted in strong selling by FII's in the last few months, the strong support by DII's has to a great extent mitigated the impact of FII

 MONTHLY VISITS **12.5m** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **76.5k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **192**

Date:	March 31, 2022	Publication:	Business Today
Media:	Online	Page No:	NA
Link: https://www.businesstoday.in/markets/stocks/story/share-market-updates-sensex-zooms-1000-points-nifty-crosses-17250-hdfc-titan-ril-top-gainers-326300-2022-03-17			

BT Business Today 

Share Market updates: Sensex zooms 1,000 points, Nifty crosses 17,250; HDFC, Titan, RIL top gainers



Fed has embarked on rate hiking cycle and has guided for an aggressive normalization, as it

deems to be the quintessential tool to normalize high Inflation. The aggressive rate hike outlook has come in response to U.S. witnessing a run-away Inflation exacerbated by rising commodity prices led by Geopolitical tensions & supply disruptions and posed with downside risks to global growth. However, with Fed alluding that economy is on a strong footing and that growth is strong, we reckon the rate hike cycle will be navigated much better this time. From Indian markets standpoint, while the impending Fed rate hike has already resulted in strong selling by FII's in the last few months, the strong support by DII's has to a great extent mitigated the impact of FII

 MONTHLY VISITS **6.3m** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **21.2k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **8**

Date:	March 31, 2022	Publication:	Indian Express
Media:	Online	Page No:	NA
Link: https://indianexpress.com/article/business/market/equity-markets-live-updates-stocks-shares-bse-sensex-nse-nifty-rupee-oil-prices-russia-ukraine-us-federal-reserve-rate-hike-march-17-7823794/			

 The Indian Express 

Market Highlights: Sensex surges 1,047 points, Nifty settles above 17,250-mark on positive global cues



Fed has embarked on rate hiking cycle and has guided for an aggressive normalization, as it deems to be the quintessential tool to normalize high Inflation. The aggressive rate hike outlook has come in response to U.S. witnessing a run-away Inflation exacerbated by rising commodity prices led by Geopolitical tensions & supply disruptions and posed with downside risks to global growth. However, with Fed alluding that economy is on a strong footing and that growth is strong, we reckon the rate hike cycle will be navigated much better this time. From Indian markets standpoint, while the impending Fed rate hike has already resulted in strong selling by FII's in the last few months, the strong support by DII's has to a great extent mitigated the impact of FII

 MONTHLY VISITS **92.3m** powered by  SimilarWeb

 COVERAGE VIEWS **110.9k**

 SOCIAL ENGAGEMENT **34**

Date:	March 31, 2022	Publication:	5Paisa
Media:	Online	Page No:	NA
Link: https://www.5paisa.com/news/what-the-start-of-us-feds-rate-hike-cycle-means-and-how-it-could-impact-india			



What the start of US Fed's rate hike cycle means and how it could impact India



Fed has embarked on rate hiking cycle and has guided for an aggressive normalization, as it

deems to be the quintessential tool to normalize high Inflation. The aggressive rate hike outlook

has come in response to U.S. witnessing a run-away Inflation exacerbated by rising commodity prices led by Geopolitical tensions & supply disruptions and posed with downside risks to global growth. However, with Fed alluding that economy is on a strong footing and that growth is strong, we reckon the rate hike cycle will be navigated much better this time. From Indian markets standpoint, while the impending Fed rate hike has already resulted in strong selling by FII's in the last few months, the strong support by DII's has to a great extent mitigated the impact of FII selling. We reckon the markets will take this rate hike cycle in its stride. as prospects remains

MONTHLY VISITS **1.6m** powered by SimilarWeb

COVERAGE VIEWS **101.7k**

SOCIAL ENGAGEMENT **0**